

शादी के लाइसेंस के लिए आवेदन करना

शादी की रस्म (सिविल या धार्मिक) होने से पहले शादी का लाइसेंस लेना जरूरी है।

शादी के लाइसेंस का आवेदन पत्र, दोनों आवेदकों द्वारा पूरा किया जाना और उस पर हस्ताक्षर किए जाने जरूरी हैं। आवेदन पत्र, दोनों आवेदकों के मूल सहायक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना जरूरी है। सहायक दस्तावेजों में शामिल हैं, पहचान, तलाक के दस्तावेज (यदि लागू हो) और अनुवाद संबंधी दस्तावेज (यदि लागू हों)।

फीस

\$150.00

पहचान संबंधी शर्तें

दोनों आवेदकों के लिए पहचान के दो (2) दस्तावेज प्रदान करने जरूरी हैं। आवेदकों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने जरूरी हैं:

- सूची 1 में से पहचान का एक दस्तावेज और सूची 2 में से पहचान का एक दस्तावेज, या
- सूची 1 में से पहचान के दो दस्तावेज।

दस्तावेजों में से कम से कम एक पर नया फोटो होना जरूरी है। केवल सूचियों में दिए गए दस्तावेज ही स्वीकार्य हैं।

पहचान के सभी दस्तावेज **मूल और वैध होने जरूरी हैं** (उदाहरण के लिए, उनकी अंतिम तिथि समाप्त न हुई हो)। पहचान के दोनों दस्तावेजों पर पहला नाम, अंतिम नाम (गोत्र) और जन्म तिथियां मेल खाती होनी जरूरी हैं। पहचान की फोटोकॉपीज स्वीकार नहीं की जाएंगी।

सूची 1 – प्राइमरी आई.डी. (ID)	सूची 2 – सेकंडरी आई.डी. (ID)
<ul style="list-style-type: none"> * जन्म प्रमाणपत्र * कनेडियन सिटीजनशिप कार्ड (Canadian Citizenship Card) * वर्तमान, वैध पासपोर्ट * कनेडियन रिकॉर्ड ऑफ इमिग्रेंट लैंडिंग (Canadian Record of Immigrant Landing) * कनेडा सरकार का वैध शरणार्थी दस्तावेज (फोटो के साथ) 	<ul style="list-style-type: none"> * सर्टिफिकेट ऑफ कनेडियन सिटीजनशिप (Certificate of Canadian Citizenship) * किसी भी देश का नागरिकता कार्ड * ड्राइविंग लाइसेंस * सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो कार्ड * पर्मानेंट रेजिडेंट कार्ड (Permanent Resident Card)
<p><i>*यदि दस्तावेज अंग्रेजी में नहीं हैं, तो मूल दस्तावेजों के साथ सर्टिफाइड कनेडियन ट्रांसलेटर द्वारा किया गया ट्रांसलेशन प्रदान करना जरूरी है। सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स को एसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रीटर्स ऑफ ओन्टारियो (Association of Translators and Interpreters of Ontario) पर ढूंढा जा सकता है।</i></p>	

नाबालिग

जिन आवेदकों की उम्र 16 और 17 साल है, उनके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है। माता-पिता/अभिभावकों, दोनों के द्वारा एक फार्म को पूरा करके उस पर हस्ताक्षर करने जरूरी हैं। फार्म, हमारे कार्यालय में उपलब्ध हैं।

दुभाषिए

जिस आवेदक(कों) को लाइसेंस जारी किया जा रहा है, उसके लिए अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना जरूरी है, अन्यथा उनके साथ दुभाषिए होना जरूरी है।

दुभाषिए को पहचान-पत्र दिखाने और घोषणा फार्म पूरा करने की जरूरत होगी।

तलाकशुदा आवेदक

कैनेडियन तलाक: तलाक के सर्टिफिकेट (Certificate of Divorce) की मूल या अदालत द्वारा प्रमाणित कॉपी जरूरी है। फोटोकॉपीज, फैसला या तलाक आदेश (Divorce Orders) स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

विदेशी तलाक: लाइसेंस जारी करने से पहले, ओनटैरियो प्रांत (Province of Ontario) से फॉरेन डिवोर्स अथॉराइज़ेशन (Foreign Divorce Authorization) प्राप्त करना जरूरी है। आवेदकों के लिए, लाइसेंस हेतु आवेदन करते समय फॉरेन डिवोर्स अथॉराइज़ेशन प्रदान करना जरूरी है। अधिक जानकारी, हमारे कार्यालय में और सर्विस ओनटैरियो (Service Ontario) में उपलब्ध है।
